

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11]

नई दिल्ली, जून 1-जून 7, 2008, शनिवार/ज्येष्ठ 11-ज्येष्ठ 17, 1930

No. 11]

NEW DELHI, JUNE 1-JUNE 7, 2008, SATURDAY/JYAISTHA 11-JYAISTHA 17, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड 4
PART II-Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 2008

का.नि.आ. 47.-केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
द्वारा 56 सेना डाकघर

[सं. 1(1)/2007-रक्षा (रा.भा.-1)]

जतिन्दरबीर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th May, 2008

S.R.O. 47.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Defence Research and Development Organisation, 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Field Research Laboratory,
C/o 56 APO

[No. 1(1)/2007-D(OL-1)]

JATINDERBIR SINGH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 2008

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय (सेना) के समाकलित मुख्यालय की सामान्य कर्मचारिवृंद शाखा के अधीन विरचना मुख्यालय में जी.एस./एस.डी. के अधीन कतिपय (गैर-औद्योगिक) समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, (सेना) के समाकलित मुख्यालय की सामान्य कर्मचारिवृंद शाखा (जी.एस./एस.डी.) के अधीन विरचना मुख्यालय मजदूर और दर्जी भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उद्भाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मजदूर	36 (2008)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के

(6)

अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
--	--	--

(7)

(8)

(9)

लागू नहीं होता

पांचवी कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय

नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
-------------------------------	---	---

(10)

(11)

(12)

सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	आमेलन पर, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेलन : विरचना मुख्यालय में समरूप/समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	---

(13)

(14)

प्रोन्नति के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
--	-----------------

1. नियुक्ति प्राधिकारी/प्रत्यायोजित नियुक्ति प्राधिकारी	—अध्यक्ष
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक/स्थापना अधिकारी	—सदस्य
3. किसी असंबद्ध विभाग से भारत सरकार के अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी या समतुल्य श्रेणी का कोई सिविलियन अधिकारी	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2. दर्जी	07 (2008)	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय, गैर-औद्योगिक	2650-65-3300-70-4000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : 1) आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख
----------	-----------	---	--------------------------	----------------	---

(6)		
		खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। (2) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों की दशा में, प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	(i) दर्जी के कर्तव्यों से सुपरिचित (ii) प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण वांछनीय	नहीं
(10)	(11)	(12)
सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	आमेदन पर, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	आमेदन : विरचना मुख्यालय में समरूप/ समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में कार्यरत व्यक्ति
(13)	(14)	
प्रोन्नति के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।	
1. नियुक्ति प्राधिकारी/प्रत्यायोजित नियुक्ति प्राधिकारी	—अध्यक्ष	
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक/स्थापना अधिकारी	—सदस्य	
3. किसी असंबद्ध विभाग से भारत सरकार के अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी या समतुल्य श्रेणी का कोई सिविलियन अधिकारी	—सदस्य	

[सं. सी./60577/जी.एस./एसडी-7(प्रशा सिक्स)/282/आर.आर./डी(नियु.)/08]

सी.जे. जोश, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 2008

S.R.O. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'D' posts (Non-Industrial) under GS/SD in the Formation Headquarters under General Staff Branch of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) in the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Formation Headquarters under General Staff Branch (GS/SD) of the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) Mazdoor and Tailor Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in Columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.—The method of recruitment, age limit and qualification and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit
1	2	3	4	5	6
1. Mazdoor	36 (2008)	Civilians in Defence Services, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) (1) The crucial date for determining the age limit for direct recruits shall in each case be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). (2) In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees/transferees	Period of probation if any
7	8	9	10
Not applicable	Fifth class pass desirable	No	Two years for direct recruits

1941 GI/08-2

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various method

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or transfer to be made

11

12

By absorption failing which by direct recruitment

Absorption : Person serving in similar/equivalent or higher grade in Formations Headquarters.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted for making recruitment

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of :—

Not applicable.

- | | |
|---|-----------|
| (1) Appointing Authority/Delegated Appointing Authority | —Chairman |
| (2) Senior Administrative/Establishment Officer | —Member |
| (3) A Civilian Officer of the rank of Under Secretary/
Section Officer of Government of India or equivalent
rank from an unconnected Department | —Member |

1	2	3	4	5	6
2. Tailor	07 (2008)	Civilians in Defence Services, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : (1) The crucial date for determining the age limit for direct recruits shall in each case be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in the Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). (2) In respect of posts the appointments to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.
7	8	9	10		
Not applicable	(i) Conversant with the duties of Tailor. (ii) Primary Std. pass desirable.	No	Two years for direct recruits.		

11	12
By absorption failing which by direct recruitment	Absorption : Person serving in similar/equivalent or higher grade in Formations Headquarters.
13	14
Group 'D' Department Promotion Committee for promotion consisting of : (1) Appointing Authority/Delegated Appointing Authority —Chairman (2) Senior Administrative/Establishment Officer —Member (3) A Civilian Officer of the rank of Under Secretary/Section Officer or equivalent rank from an un-connected Department —Member	Not applicable

[No. C/60577/GS/SD-7 (Adm Civs)/282/RR/D (Appts.)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 2008

का.नि.आ. 49.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कैडेट कोर नियम, 1948 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2008 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 में,—
(1) नियम 5 में, खंड (ख) में “26 वर्ष की आयु से कम” अंक और शब्दों के स्थान पर “24 वर्ष की आयु से कम” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
(2) नियम 12 में, उपनियम (1) में, अंत में आने वाले “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।
(3) नियम 13 में, उपनियम (1) में, “चार वर्ष” शब्दों के स्थान पर “तीन वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 0946/पुनः संर/एनसीसीमु./योजना]

भास्कर वर्मा, उप सचिव

टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड 3 में सं. 289 तारीख 19 फरवरी, 1949 को प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम संशोधन सं. का.नि.आ. 57 तारीख 26 फरवरी, 1985 द्वारा किए गए थे।

New Delhi, the 23rd May, 2008

S.R.O. 49.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the National Cadet Corps Act, 1948 (XXXI of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Cadet Corps Rules, 1948, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Cadet Corps (Amendment) Rules, 2008.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Cadet Corps Rules, 1948,—
(i) in rule 5, in clause (b), for the words and figures “under the age of 26 years” the words and figures “under the age of 24 years” shall be substituted.
(ii) in rule 12, in sub-rule (1), for the words “three years” occurring at the end, the words “two years” shall be substituted.
(iii) in rule 13, in sub-rule (1), for the words “four years” the words “three years” shall be substituted.

[F.No. 0946/Re-str/NCC HQ/Plg.]

BHASKAR VERMA, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part I, Section 3, vide number 289 dated the 19th February, 1949 and last amended by S.R.O. 57 dated the 26th February, 1985.